

## जनपद बाराबंकी

दिनांक 18.06.2022

जनपद में संदिग्ध व्यक्तियों/वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बाराबंकी पुलिस द्वारा दिनांक 17/18.06.2022 को 01 वारण्टी व कुल 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 118 अभियुक्तों के विरुद्ध शांतिभंग की कार्यवाही की गयी।

01. ➔ थाना रामनगर पुलिस ने दो वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

थाना रामनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 308/22 धारा 363/366/368 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सागर पुत्र स्व0 बांठे वर्मा निवासी सिपहिया हुलास थाना बौण्डी जनपद बहराइच 2. राजू उर्फ संजू वर्मा पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी रिठौरा थाना जरवल रोड जनपद बहराइच को आज दिनांक 18.06.2022 को गिरफ्तार किया गया।

02. ➔ थाना बदोसराय पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

थाना बदोसराय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 163/22 धारा 354क/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त कुलदीप यादव पुत्र जवाहर लाल निवासी माफी मजरे मरोचा थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 18.06.2022 को गिरफ्तार किया गया।

03. ➔ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 10 अदद कनेक्टिंग रॉड बरामद-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 523/22 धारा 380/411/413/414 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद जमील पुत्र कल्लू उर्फ गफफार निवासी मोहल्ला पीरबटावन थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 18.06.2022 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अग्रवाल बाउंड्री फैक्ट्री से चोरी हुई 10 अदद कनेक्टिंग रॉड बरामद किया गया।

04. ➔ थाना रामसनेही घाट पुलिस द्वारा क्षेत्र की जनता के सहयोग से एक अभियुक्त को भेजा गया जेल-

थाना रामसनेही घाट पुलिस टीम द्वारा शातिर चोर- रामराज पुत्र सीताराम निवासी रसूलपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी को दिनांक 17.06.2022 को क्षेत्र की जनता की सहयोग से मय एक अदद मोबाइल फोन(लूटा हुआ) व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल यूपी 32 सीवी 5413 के साथ गिरफ्तार कर थाना रामसनेही घाट पर मु0अ0सं0 321/2022 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत कर जेल भेजा गया।

05. ➔ थाना हैदरगढ़ पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 04 बोटा शीशम की लकड़ी व 35 बोटा सागौन की लकड़ी बरामद-

थाना हैदरगढ़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.06.2022 को अभियुक्तगण 1. बलदेव यादव पुत्र रामप्रताप निवासी रेक्सहा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी 2. शुभम तिवारी पुत्र रविशंकर तिवारी निवासी हरपालपुर थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी को ग्राम नरौली के पास से

गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 04 बोटा हरे शीशम की लकड़ी व 35 बोटा हरे सागौन की लकड़ी बरामद की गयी। थाना हैदरगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए थाना हैदरगढ़ पर मु0अ0सं0 220/2022 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया ।